



घरेलू कचरे के नपिटान का सही तरीका



पारदर्शीपीईटीबोतल (पेय, बोतलबंदपानी)

Step 01 खाली



Step 02 कुल्ला



Step 03 अलग



Step 04 मिलाएं नहीं




पेपरपैक (दूधकाकार्टन, सोयादूधकाकार्टन, सोजूकाकार्टन)

सामग्री को खाली करे और पानी से अच्छी तरह धो ले।



धातुकेडबिबे (पेयकेडबिबे, बीयरकेडबिबे, डबिबाबंदभोजनकेडबिबे)

धातु के डबिबे और प्लास्टिक के ढक्कन जैसी अन्य सामग्री को हटाना



कांचकीबोतले (पेयकीबोतले, शराबकीबोतले, सोजूकीबोतले)

सामग्री को खाली करे और पानी से धोएं। इसमें सगिरेट के टुकड़े जैसी कोई बाहरी वस्तु न डालें।



बेकार बैटरियां


उत्पादसेअलगकरनाऔरउसकानपिटानकरनासुनिश्चितकरें।



- पर्युक्तबैटरियोंकेमशरूतिनपिटानसेबड़ीआगलगसकतीहै।
- उपयोगकीगई20 टरियोंकोनईबैटरियोंसेबदले (डोंगप्रशासनकिकल्याणकेंद्र, संसाधनपुनर्प्राप्तसुविधा, सुवनखेलऔरसंस्कृतकिंदर)

गैर-दहनशील अपशषिट

प्रशासनकिकल्याण केन्द्र से पीपी बारदाने कर्य कर उनका नसितारण करे।



- टूटे हुए कांच के सामान (फ्लोरोसेट रोशनी, प्रकाश जुडनार, बोतले, दर्पण), चीनी मट्टी के बर्तन, रेत या गंदगी, आदि।

बेकार पड़े घरेलू उपकरणों के नःशुल्क ऑन-साइट संग्रह के लिए आरक्षण

1599-0903

www.15990903.or.kr

खाना बर्बाद



पानी को डिसिचार्ज करने से पहले जतिना संभव हो उतनी नमी नकालने के लिए उसे नथिोड ले। (केवल पानी हटाकर उत्सर्जन को 10% से अधिक कम किया जा सकता है)

खाद्य अपशषिट के अलावा अन्य वदिशी पदार्थ, जैसे डिसिपोजेबल प्लास्टिक बैग और टूथपकिस् हटा दें।

नमकीन सॉस और कमिची को फेकने से पहले पानी से धो लें।

तरबूज जैसी बड़ी वस्तुओं को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उनका नपिटान कर दें।

खाद्य अपशषिट का नपिटान एक समरूपति खाद्य अपशषिट केंटर या मात्रा-आधारति खाद्य अपशषिट बैग में करें।

कूडानसितारणकासमय (शनिवारऔरविवारकोकोईछुट्टीनहीं)

- डिसिचार्ज स्थान: मेरा घर या मेरी दुकान के सामने
- डिसिचार्ज समय: हर दिन रात 8 बजे और अगले दिन सुबह 5 बजे

수원특례시